

# **भारत का राजपत्र** **The Gazette of India**

**असाधारण**  
**EXTRAORDINARY**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)**  
**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**

**प्राधिकार से प्रकाशित**  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं० 540] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 1979/अग्रहायण 26, 1901  
 No 540] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 17, 1979/AGRAHAYANA 26, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
 रखा जा सके :

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
 separate compilation

**भारत निर्वाचन आयोग**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1979

का. आ. 849 (अ)/सं. 434/उड़ीसा/79 (1).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्वारा यह निदेश देता है कि इसकी तारीख 31 अक्टूबर, 1979 की अधिसूचना संख्या 434/उड़ीसा/79(1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

- (1) उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के मध 9 में, स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्टियों “7-आपातकालीन आफिसर, भुवनेश्वर” और “13-विशेष प्रमाण-पत्र आफिसर, भुवनेश्वर” के स्थान पर



क्रमशः "7-निजारात आफिसर, भुवनेश्वर" और "13-कार्यभारी अधिकारी, दण्डिक न्यायालय, भुवनेश्वर" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

- (2) मद 12 में, स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्टियों "16-परियोजना निदेशक, जनजाति विकास अभिकरण, गूनुपूर" और "18-पुनर्वासि आफिसर, अपर कोलाब परियोजना, कोरापूट" के स्थान पर क्रमशः "16-परियोजना प्रशासक, आई. टी. डी. ए. गूनुपूर" और "18-भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापना आफिसर, अपर कोलाब परियोजना, कोरापूट", प्रविष्टियां रखी जाएंगी ।

आदेश से,

के. गणेशन, सचिव

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 1979

**S.O. 849(E)/No. 434/OR/79(1).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 434/OR/79(1), dated 31st October, 1979, namely :—

- (i) In the Table appended to the said notification in item 9, for the existing entries in column 2, "7. Emergency Officer, Bhubaneswar", and "13. Special Certificate Officer, Bhubaneswar", the entries "7. Nizarat Officer, Bhubaneswar" and "13. Officer incharge Criminal Court, Bhubaneswar", respectively, shall be substituted ;
- (ii) in item 12, for the existing entries in column 2, "16. Project Director, Tribal Development Agency, Gunupur" and "18. Rehabilitation Officer, Upper Kolab Project, Koraput", the entries "16. Project Administrator I.T.D.A., Gunupur" and "18. Land Acquisition and Resettlement Officer, Upper Kolab Project, Koraput", respectively, shall be substituted.

By Order,

K. GANESAN, Secy.